

प्रेस नोट दिनांक-04.02.2021

(1). आज दिनांक-04.02.2021 को चौरी चौरा जनक्रान्ति शताब्दी महोत्सव शुभारम्भ के अवसर पर माननीय राज्यमंत्री श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री शेषमणि पाण्डेय जिलाधिकारी, श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक द्वारा नवनिर्मित शहीद स्मारक का फीता काटकर लोकार्पण किया, शहीद स्तम्भ पर पुष्प कर श्रद्धांजलि दी एवं वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में सामूहिक रूप से वन्देमातरम गाया गया। इसके पश्चात महोदय द्वारा प्रभात फेरी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

इसके पश्चात माननीय विधायक मऊ-मानिकपुर श्री आनन्द शुक्ला, श्री शेषमणि पाण्डेय, श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, श्री चन्द्रप्रकाश खरे जिलाध्यक्ष द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीद परिजनों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। मा0 प्रधानमंत्री जी व मान0 मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण का लाइव प्रसारण देखा गया तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा

महोत्सव में श्री अमित आसेरी मुख्यविकासधिकारी, श्री गणेश प्रसाद अपर जिलाधिकारी, श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक, श्री रामप्रकाश उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 241/19 धारा 125 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त कल्लू उर्फ राजकुमार पुत्र राजबहादुर उर्फ भूरा निवासी संग्रामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. आरक्षी प्रकाश
3. आरक्षी श्यामू

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा बोड़ी पोखरी चौराहा के पास से अभियुक्त कुदरत अली पुत्र निजाम निवासी मुस्लिम पुरवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 09/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

05 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री असलम खां

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के कुशल निर्देशन में गैंग की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा तथा श्री राकेश कुमार सरोज प्रभारी रेंज एण्टी डकैती टीम की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौरी गैंग के 02 मददगार अभियुक्त 1. महेश यादव उर्फ बच्चा पुत्र देशराज 2. अभियुक्त संतोष यादव पुत्र रामबहोरी उर्फ राजा निवासीगण छोटी बिलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को अवैध देशी पिस्टल, तमंचा, जिन्दा व खोखा कारतूस व खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया गया।

प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह तथा उनकी टीम को आज दिनांक 04.02.2021 को सुबह लगभग 06.00 सूचना मिली कि गौरी गैंग के 02 मददगार गैंग को खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं देने हेतु माड़ों बांध ददरी माफी के रास्ते जंगल जाने वाले है।

इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा माड़ों बांधा के पास पहुंचकर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में गाड़ाबंदी करके बैठ गये, अभियुक्तों ने पुलिस टीम को देखा तो पुलिस टीम पर जान से मारने की नियमत से फायर कर दिया, जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बची, पुलिस टीम द्वारा तुरन्त पॉजीशन लेते हुए मोर्चा लिया। पुलिस टीम द्वारा बिना मौके दिये जान की बाजी लगाकर घेरकर दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया।

पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त महेश यादव उर्फ बच्चा को 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारातूस, 01 अदद खोखा कारातूस एवं खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा अभियुक्त संतोष यादव को 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारातूस व 01 अदद खोखा कारातूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 14/21 धारा 216ए/307 भादवि0 (पुलिस मुठभेड़) व 12/14 डीए एक्ट व 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

बरामदगी:-

1. महेश यादव उर्फ बच्चा के कब्जे से 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारातूस, 01 अदद खोखा कारातूस एवं खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं
2. अभियुक्त संतोष यादव के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारातूस व 01 अदद खोखा कारातूस

प्रथम टीम:-

1. श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा
2. श्री शेषमणि त्रिपाठी प्रभारी चौकी ददरीमाफी
3. वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी
4. आरक्षी रामकेश कुशवाहा
5. आरक्षी राजकुमार
6. आरक्षी धनन्जय दास गुप्ता
7. आरक्षी प्रदीप

द्वितीय टीम:-

1. श्री राकेश कुमार सरोज प्रभारी रेंज एण्टी डकैती टीम
2. उ0नि0 श्री सूबेदार बिंद
3. मुख्य आरक्षी रामबाबू

(5). आज दिनांक 4/02/2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में धी घनश्याम पाण्डेय यातायात प्रभारी चित्रकूट इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट बच्चों को यातायात के नियमों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी तथा जागरूक गया कि अपने घरों में जाकर अपने घर के ऐसे सदस्यों को यातायात के नियमों के संबंध में जागरूक करें जो मोटरसाइकिल चार पहिया हल्के वाहन अथवा भारी वाहन चलाते हैं। एनसीसी कैडेटों की शहर के अंदर रैली निकाली गई तथा जगह-जगह पर रैली को रोककर जनता के लोगों को यातायात के नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। शहर के प्रमुख चौराहों पटेल तिराहा ट्राफिक चौराहा एलआईसी तिराहा आदि जगहों पर रैली को रोककर पैदल चलने वाले यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक किया गया। रैली में कॉलेज के छात्र छात्राओं के अतिरिक्त अध्यापक गण एवं जनता के लोग सम्मिलित हुए। वाहन चालको को ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के प्रयोग ना करने एवं शराब के नशे में वाहन चलाने के संबंध में जागरूक किया गया। यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को चालान किया गया।

(6). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 04.02.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा के बोड़ी पोखरी चौराहे में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा महामती प्रणनाथ जिग्री कालेज, आनन्दी माता मन्दिर शिवरूपर तिराहा, भारतीय स्टेट बैंक मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम बेराउर में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम बरगढ़ में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा आर्यावर्त बैंक, बिसंडा तिराहा, बस स्टैंड आदि जगहों में, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा ग्राम अकबरपुर और घूरेटनपुर के स्कूल में, एण्टी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा रेलवे स्टेशन, शम्भू पेट्रोल पंप, पटेल चौराहे, ट्राफिक चौराहा, बस स्टैंड, काली देवी चौराहा, कोठी तालाब क्षेत्र में बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गुमशुगदा/अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम बरगढ़ में लगे उर्स के मेले के दौरान खोये हुये बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया।

आज दिनांक 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत थाना बरगढ़ के एण्टी रोमियो टीम ग्राम बरगढ़ में लगे उर्स के मेले में भ्रमणशील थी कि इस दौरान श्रीमती रूमी पत्नी गुलशन निवासी ललई द्वारा सूचना दी गयी कि उनका पुत्र इमरान जिसकी उम्र 02 वर्ष है मेले में कहीं खो गया है मिल नहीं रहा। इस सूचना पर एण्टी रोमियो टीम द्वारा तत्काल बालक को खोजना प्रारम्भ की कड़ी मेहनत के बाद बालक को सकुशल बरामद कर श्रीमती रूमी के सुपुर्द किया। बालक को पाकर श्रीमती रूमी के चेहरे पर मुस्कान लौटी तथा वहां पर उपस्थित सही लोगों ने पुलिस के तत्परतापूर्वक किये इस कार्य के लिये एण्टी रोमियो टीम की सराहना की।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री सिद्धनाथ राय एण्टी रोमियो प्रभारी बरगढ़
2. आरक्षी राहुल यादव
3. आरक्षी रामकुमार यादव
4. महिला आरक्षी निधी सेंगर

(8).

प्रेस नोट

पीआरवी कर्मियों को 'बेसिक पुलिस टैक्टिक्स' का प्रशिक्षण मिला

संदिग्ध की तलाशी, गिरफ्तारी सहित कई आधुनिक तरीके बताये गए

चित्रकूट जिले में 167 पुलिस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

पीआरवी कर्मियों को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस कर्मियों को 'बेसिक पुलिस टैक्टिक्स' का प्रशिक्षण दिया गया. एडीजी, 112-यूपी श्री असीम अरुण के दिशा निर्देश में चित्रकूट जिले के 167 कर्मियों को बुनियादी पुलिस रणनीति की जानकारी दी गयी. प्रशिक्षण के उपरांत चित्रकूट जिले में प्रशिक्षण के दौरान पीआरवी द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों को शामिल किया गया है.

गिरफ्तारी और तलाशी कैसे हो बताया गया

पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि कार्य के दौरान यदि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जाये. कार्य के दौरान अपने से बलिष्ठ किसी आरोपी को कैसे काबू करना है, प्रशिक्षण में ये भी पुलिस कर्मियों को बताया गया. किसी संदिग्ध व्यक्ति या स्थान की तलाशी कैसे लेनी है और इस दौरान किस-किस सावधानियों को ध्यान में रखना है, इससे भी कर्मियों को अवगत कराया गया. प्रशिक्षकों ने पुलिस वाहन को चलाने के तरीकों से कर्मियों को प्रशिक्षित किया.

प्रशिक्षकों को लखनऊ में मिला विशेष प्रशिक्षण

'बेसिक पुलिस टैक्टिक्स' को पढ़ाने के लिए चित्रकूट जिले के ज्ञानेन्द्र सिंह, वीरबहादुर सिंह को लखनऊ में 'प्रशिक्षक कोर्स' कराया गया है. 'प्रशिक्षक कोर्स' करने वालों को प्रशिक्षक किट भी दी गयी, जिसमें सभी आवश्यक साजो-सामान उपलब्ध है. 'प्रशिक्षक कोर्स' कर चुके प्रशिक्षकों द्वारा जिलों में कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

प्रशिक्षण का उद्देश्य

पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है. इसके साथ ही गिरफ्तारी के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं और पीआरवी के साथ सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है.